


# ARMY PUBLIC SCHOOL, DANAPUR

## CANTT

### SUMMER HOLIDAY HOMEWORK

CLASS V



Dear Student,

- Summer Vacation is the best and the most fruitful time for learning and nurturing creativity. Keeping this objective in mind we have planned diverse and exciting activities that will enhance your knowledge and boost your creativity.
- “Knowledge is Power”. Therefore read lots and lots of books to cultivate the reading habit and develop your vocabulary, language skills, increase your attention span and improve your spellings.
- “A healthy mind lives in a healthy body”. So play the sport of your choice INDOORS. It will help to instill discipline, generate sporting spirits and channelize your energies constructively.
- Get up early in the morning and see the rising sun. Do indoor exercises / yoga and stay healthy and fit. Spend quality time with your elders and share your thoughts and ideas with them.
- Eat healthy food and drink lots of water during summer.



Edit with WPS Office

## ENGLISH:

- Learn and revise the following chapters :  
Literature: Ch 1, Ch 2 and Poem 1  
Grammar: Ch 9 and Ch 17
- Learn spellings and its meaning from 1 to 50 from the spelling list.
- Make project on great English writer of your choice. Paste his/her picture on A4 size paper and write details about his/her early life, education and achievements.
- Read the book 'Adventures of Tom Sawyer'- Mark Twain and write the summary of the book in your own words. (A4 Paper)
- Draw different types of punctuation marks. (A4 Paper)

Note : Do not write anything in C.W copy.

## HINDI:

- विभिन्न प्रकार के चित्रकलाओं का कोलाज बनाओ।
- किन्ही पाँच खिलाड़ियों के चित्र को चिपका कर उनके बारे में चार-पाँच पंक्तियाँ लिखे।
- किन्ही 10 मुहावरे को लिखकर उनके अर्थ लिखे तथा उनसे वाक्य बनाएँ।
- पढ़ाए गए सभी पाठ को पुनरावृत्ति करें।
- अपने लेखन को बेहतर करने के लिए रोज एक पेज लेख लिखें।



## **EVS:**

- Learn and revise all the chapters taught.
- Paste 10 pictures of community helpers and write their contribution in our society. (On a A4 Sheet one on each page)
- Prepare a model of Respiratory System.
- Prepare a list of indoor and outdoor sports. Paste picture of Indian sports person associated with these sports.
- Prepare a list of ten such people who have done excellent work in their field despite being disabled. Also paste their pictures.

## **MATHS:**

1. Learn table 2 to 20.
2. Define fraction and its types with examples on chart paper.
3. Make Indian and International place value chart of any 7 digits number on A4 sheet.
4. Learn and revise all the taught chapters.
5. Make a model of the dream house using cardboard of different shapes.

## **GK:**

1. Paste 10 pictures of women scientists and write about their achievements or contribution to their respective fields.
2. Learn current affairs for the month of May and June (2024)



from the daily newspaper.

3. Learn the taught chapters from the GK book.

### COMPUTER:

- Learn Lesson No: 1, 2 and do activity of page no: 12,24
- Draw or paste any five early calculating devices on A3 sheet.

### Music:

Learn and practice National Anthem and also write in your music copy.



Edit with WPS Office